



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26—जुलाई 2, 2004 (आषाढ़ 5, 1926)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26—JULY 2, 2004 (ASADHA 5, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry
of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(वित्त विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2004

सं. 302, तारीख 02 जून 2004.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों जो वैयक्तिक/स्व-स्थाने आधार पर उप वित्तीय सलाहकार (उप सचिव) के रूप में कार्यरत हैं, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.3.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/11/2004-सी.एस.-1 के संदर्भ में उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथियों से अगले आदेशों तक रक्षा मंत्रालय (वित्त) में तदर्थ आधार पर उप वित्तीय सलाहकार (उप सचिव) नियुक्त करते हैं:--

श्री डी. एच. सरकार, 25.3.2004

आर. कंडीर, 26.3.2004

एन. गणपति, 25.3.2004

एस. एल. एस. हिमांशु, 25.3.2004

राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के का.ज्ञा. संख्या 21/9/2004-सीएस-1 के अनुसरण में का. और

प्रशि. विभाग के उपर्युक्त का.ज्ञा. में निहित शर्तों के तहत अगले आदेशों तक रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई दिनांक से रक्षा मंत्रालय (वित्त विभाग) में 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:--

श्री अभय कुमार शरण, 25.3.2004

श्री मामराज सिंह, 25.3.2004

श्री एम. एम. शर्मा, 25.3.2004

श्री वी. के. अग्रवाल, 25.3.2004

श्री शंकर चौधरी, 25.3.2004

श्री पी. वी. प्रसाद, 25.3.2004

श्री बलबीर सिंह, 1.4.2004

श्री एच. सी. चौला, 25.3.2004

श्री आर. एस. भट्टिया, 25.3.2004

श्री राजेन्द्र पाल, 1.4.2004

श्री जे. आर. कपूर, 1.4.2004

श्री एम. के. शर्मा, 1.4.2004

श्री एस. के. सचदेवा, 25.3.2004

श्री छिद्दा मल, 1.4.2004

श्री तुलसी राम, 25.3.2004

श्रीमती सुदेश शर्मा, 25.3.2004

श्री सुरजीत सिंह, 25.3.2004

श्री वाई. के. कौशिक, 25.3.2004

एस. सी. लूथर
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

(सेना शाखा)

सं. 303, दिनांक 07 जून 2004.---राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित जैण्टल मैन कैंडेट जो कि 92 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को 08 दिसम्बर 2001 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 12 दिसम्बर 1999 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/5940 राजीव कुमार सिंह (आई सी 61988 पी) ई एम ई की वरिष्ठता टी/34031 राणा करन सिंह (आई सी 61989 एक्स) इंजिनियर्स के ऊपर प्रकाशित की जाए जिनका नाम भारत के राजपत्र दिनांक 20 जुलाई 2002 में प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित जैण्टल मैन कैंडेट जो कि 10 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को 08 जून 2002 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 2/98 परिशोधित संख्या सेना अनुदेश 12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 11 जून 2000 से सेना अनुदेश 2/93 के परिशोधित संख्या सेना अनुदेश 12/96 के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

यू/358 रितेश प्रभाकर (आई सी 62470 एन) इंजिनियर्स की वरिष्ठता यू/379 धीरज धीमान (आई सी 62469 वाई) ई एम ई के नीचे प्रकाशित किया जाए, जिनका नाम भारत के राजपत्र दिनांक 01 मार्च 2003 में प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित जैण्टल मैन कैंडेट्स जो कि 90 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को 09 दिसम्बर 2000 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 13 दिसम्बर 1998 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/5811 ज्योति कुमार (आई सी 61191 डब्ल्यू) इंजिनियर्स की वरिष्ठता टी/5816 वैभव त्रिवेदी (आई सी 61192 वाई) ई एम ई के ऊपर, टी/5791 सामेराज त्रिपाठी (आई सी 61195 एम) सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/5806 भगवान प्रकाश द्विवेदी (आई सी 61194 के) ई एम ई के नीचे और टी/5834 गौतम सूद (आई सी 61196 पी) ई एम ई की वरिष्ठता यू/250 विशाल सिंह (आई सी 61197 एक्स) इंजिनियर्स के ऊपर प्रकाशित की जाए जिनका नाम भारत के राजपत्र दिनांक 23 जून 2001 में प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित जैण्टल मैन कैंडेट जो कि 91 टी जी सी पाठ्यक्रम और 09 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) और यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 09 जून 2001 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93 परिशोधित संख्या सेना अनुदेश 12/96 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 13 जून 1999 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93 परिशोधित संख्या सेना अनुदेश 12/96 के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

यू/289 सिमरजीत सिंह (आई सी 61228 एम) ई एम ई की वरिष्ठता यू/292 सीमांत उपाध्याय (आई सी 61229 पी) सिग्नल्स के ऊपर, टी/5899 सचिन चौधरी (आई सी 61239 वाई) सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/5880 अमन मेहता (आई सी 61238 डब्ल्यू) ई एम ई के नीचे, यू/299 सुप्रतिम दत्ता (आई सी 61274 एफ) इंजिनियर्स की वरिष्ठता यू/277 नितिन सुरेश खैरमोडे (आई सी 61273 वाई) इंजिनियर्स के नीचे, यू/296 मनबीर सिंह (आई सी 61276 एस) सिग्नल्स की वरिष्ठता यू/293 नन्द किशोर (आई सी 61275 के) सिग्नल्स के नीचे, टी/5885 विक्रम खुजिया (आई सी 61280 पी) ई एम ई की वरिष्ठता टी/33651 एम डी गोपीनाथ (आई सी 61279ए) सिग्नल्स के नीचे, टी/5896 धनन्जय कुमार (आई सी 61281एक्स) इंजिनियर्स की वरिष्ठता टी/5879 प्रशांत जस्सल (आई सी 61282 ए) इंजिनियर्स के ऊपर, यू/276 दिवाकर कुमार गुप्ता (आई सी 61290 वाई) इंजिनियर्स की वरिष्ठता टी/5868 जितेंद्र तिवारी (आई सी 61289के) ई एम ई के नीचे, यू/282 अमित बेक्टर (आई सी 61291 एफ) सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/5858 सौम्या प्रकाश ओटा (आई सी 61292 के) सिग्नल्स के ऊपर, टी/5903 विपिन कुमार सक्सेना (आई सी 61295 एक्स) ई एम ई की वरिष्ठता टी/5876 एन विनोद कुमार (आई सी 61296ए) इंजिनियर्स के ऊपर, टी/5877 मुनीश कुमार खुल्लर (आई सी 61297एच) इंजिनियर्स की वरिष्ठता टी/5836 गुरबीर सिंह (आई सी 61298 एल) इंजिनियर्स के ऊपर, टी/5878 मिसाल यशवंत श्यामराव (आई सी 61310 एफ) ई एम ई की वरिष्ठता टी/5902 दुर्गेश कुमार परिहार (आई सी 61309 एम) ई एम ई के नीचे, यू/322 विक्रम सिंह (आई सी 61317 एल) इंजिनियर्स की वरिष्ठता यू/327 सुनील कुमार सुहाग (आई सी 61316 एच) इंजिनियर्स के नीचे, और टी/33597 नितिन (आई सी 61320 एल) सिग्नल्स की

वरिष्ठता टी/5883 अभय कुमार (आई सी 61319 डब्ल्यू) ई एम ई के नीचे प्रकाशित की जाए जिनका नाम भारत के राजपत्र दिनांक 05 जनवरी 2002 में प्रकाशित हो चुका है।

विजय सहगल
ले. कर्नल
ए एम एस 8बी

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 304, दिनांक 08 जून 2004.--राष्ट्रपति महोदय वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

श्री पवन कुमार, 29 दिसम्बर 2000 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, द्वारा हाल नासिक डीविजन, ओझर में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री अनिल कुमार भुयान, 06 दिसम्बर 2000 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, पोस्ट बाक्स सं. 6, सुनाबेदा, कोरापुट-763002 में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री के परमानन्द, 06 दिसम्बर 2000 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, विमानपुरा पोस्ट, पोस्ट बाक्स सं. 1782, बंगलौर में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री पी अनिस बाबू, 12 जनवरी 2001 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए एम एस क्यू ए ए, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, द्वारा डी आर डी एल, कंचनबाग पोस्ट, हैदराबाद में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री गणेश प्रसाद साहु, 16 जनवरी 2001 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, हाल पोस्ट, हैदराबाद-500042 में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री महेन्द्र प्रसाद, 07 मार्च 2001 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, हाल पोस्ट, लखनऊ में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री जे एस प्रजापति, 21 मार्च 2001 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, हाल पोस्ट, हैदराबाद-500042 में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री के रामास्वामी, 14 मई 2001 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए एम एस क्यू ए ए, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय द्वारा डी आर डी एल, कंचनबाग पोस्ट, हैदराबाद में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री राजेश यादव, 29 मार्च 2001 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की

परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, हाल पोस्ट, लखनऊ में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री मानस कुमार डे, 17 जनवरी 2002 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, रायपुर पोस्ट, देहरादुन में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री आर जी डिककर, 13 जनवरी 2002 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, किरकी, पुणे में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री संजीव दीवान, 24 जुलाई 2002 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, हाल पोस्ट, कानपुर में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री आर एस यदुवंशी, 14 नवम्बर 2002 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, द्वारा बी ई एल, भारत नगर पोस्ट, गाजियाबाद में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

श्री अलगुमुरगेसन, 30 जनवरी 2003 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मुख्यालय, वै.गु.आ.मनि, रक्षा मंत्रालय, एच ब्लॉक, नई दिल्ली में व.वै.अ-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

वी सेतुमाधवन
अवर सचिव

नेवी ब्रांच

नौसेना मुख्यालय

सं. 305, दिनांक 03 जून 2004.--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक श्री सोहन लाल छाबड़ा, को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 16-03-2004 से 24-08-2004 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10500 में नियुक्त करते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

सन्तोष दासगुप्ता
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 306, दिनांक 08 जून 2004.--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय

के पत्र संख्या एम एफ/1108/डी ई एस/1746/यू एस (पी)डी(एन-II), दिनांक 04 दिसम्बर 2001 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

सिंह रूपेन्द्रा कुमार (05069डब्ल्यू), अल्पकालीन--07 जुलाई 2000

मितल संजीव कुमार (05077एन), अल्पकालीन--10 जुलाई 2000

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/271/यू एस (पी)डी(एन-II), दिनांक 24 फरवरी 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की अभियंत्रिकी शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

शेख अकबर अली (51795आर), अल्पकालीन--06 जुलाई 2001

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/271/यू एस (पी)डी(एन-II), दिनांक 24 फरवरी 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की अभियंत्रिकी शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

पब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

कुमार अमरेन्द्रा (51792एच), अल्पकालीन--02 जुलाई 2001

हासमानस सागर अशोक (51793के), अल्पकालीन--02 जुलाई 2001

कुलकर्णी संदीप दिगम्बर (51794एन), अल्पकालीन--02 जुलाई 2001

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ एफ/1401/एन एच यू/1471/यू एस (पी)डी(एन-II), दिनांक 31 अक्टूबर 2002 के अधीन भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

पब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

अरसादा विद्या सागर (70468बी), स्थायी--02 जुलाई 2001

दत्ता सन्दूपाल (70469एफ), स्थायी--05 जुलाई 2001

कुमार परितोष

कमांडर

संयुक्त निदेशक जनशक्ति (आर एण्ड आर)

रक्षा मंत्रालय एकीकृत मु. (नौ सेना)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 307, दिनांक 3 जून 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सहायकों को, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 की

धारा 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) वेतनमान 6500-200-10500 के पद पर उनके नामों के आगे अंकित तिथि से दिनांक 24 फरवरी 2004 तक या सेवा निवृत्त होने तक अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम सर्व श्री	तिथि
1.	श्रीमती एस के साहनी	09 फरवरी 2004
2.	आई एस शर्मा	01 जनवरी 2004
3.	कमल कुमार	22 दिसम्बर 2003
4.	आर के भोंसले	22 दिसम्बर 2003
5.	पी डी शर्मा	22 दिसम्बर 2003
6.	एच एस शर्मा	05 फरवरी 2004
7.	आर पी शर्मा	05 फरवरी 2004

इनकी नियुक्ति बिल्कुल काम चलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर यह नियुक्तियां बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सेना शाखा

सं. 308, दिनांक 7 जून 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

ए के गैरुला (आई सी-38902) इन्फैन्ट्री, 07 जून 2000

एस के शर्मा (आई सी-38659) इन्फैन्ट्री, 07 जून 2000

डी के सावन (आई सी-38081) इन्फैन्ट्री, 14 जनवरी 2000

ए मुखर्जी (आई सी-35777) आर्टी, 16 दिसम्बर 1999

के बी कौशल (आई सी-39721) आर्टी, 13 जून 2001

टी बि एस मुर्ती (आई सी-40226) इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2001

एस बी सिन्हा (आई सी-41197) एएससी, 18 जून 2003

कृष्ण चन्द (आई सी-42713) इंजिनियर्स, 25 दिसम्बर 2002

ए आर वर्मा (आई सी-45051) इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2003

विमान राय (आई सी-41608) एएससी, 17 दिसम्बर 2003

वाई पी सिन्हा (आई सी-45166) ईएमई, 10 नवम्बर 2003

देवेन्द्र सिंह (आई सी-41745) ईएमई, 17 दिसम्बर 2003

डी चौधरी (आई सी-43623) सिग्नल्स, 18 दिसम्बर 2003

एस एस सिन्हा

उप निदेशक

डी ए एम एस-8ए

सं. 309, दिनांक 04 जून 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

आर सी नं., नाम व आर्म

732 ओम प्रकाश कोरला, आर्टी

742 मोहन सिंह सोहल, आर्टी

734 विश्वानाथन के पी, ई एम ई

751 वेनूगोपालन पी, ई एम ई

766 यदविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

777 राम कुमार, ई एम ई

790 बिशन दास चौधरी, इन्फैन्ट्री

795 असलम अली, इन्जी.

797 सेवा सिंह, आर्टी

799 प्रकाश चन्द आजाद, ए सी

805 जसबीर सिंह, आर्टी

714 सुरीसेट्टी अप्पाला नायडू, सिग्नल्स

--05 दिसम्बर 2002

(वेतन व भत्ते दिनांक 27 अक्टूबर 2003 से देय)

आई सी-46607 सुधीर गोविल, ए एस सी

--27 अक्टूबर 2002

(वेतन व भत्ते दिनांक 27 अक्टूबर 2003 से देय)

आई सी-54656 सुनिल कुमार झा, ए एम सी

--06 नवम्बर 2002

(वेतन व भत्ते दिनांक 27 अक्टूबर 2003 से देय)

आई सी-53864 चौधरी राहुल दन्यानेश्वर, ई एम ई

आई सी-53865 हुन्देकर सबीर इब्राहिम, ई एम ई

आई सी-53869 परमजीत सिंह ज्योति, इन्जी.

आई सी-53873 अविनाश कटोच, ई एम ई

--13 जून 2003

आई सी-55322 दिनेश कुमार, इन्जी.

आई सी-55325 जफर सफदर, इन्जी.

आई सी-55326 भूषण रामदास अवसरे, ई एम ई,

आई सी-55330 ब्रजेश द्विवेदी, सिग्नल्स

आई सी-55331 जगवीर सिंह जगलान, ई एम ई

--11 मई 2003

के एस वर्मा

संयुक्त निदेशक

एम एस-8सी

(वायु सेना)

सं. 310, दिनांक 08 जून 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति मूल रूप में करते हैं--

भारतीय वायु सेना

विमानिक अभियांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट से मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

पी नरेंद्र (20913), 09 मार्च 2000 से

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

पी सिंह (20520), 14 जनवरी 2000 से

एस श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ-3(डी)

राजपत्र सं. 311, दिनांक 07 जून 2004.--भारत के राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं--

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर के मूल रैंक में

आर. सी. बन्सल (16933), वैई (वै)--16 जनवरी 2004

एस. के. शुक्ला

सहा निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

(सेना शाखा)

शुद्धि-पत्र

सं. 312, दिनांक 07 जून 2004.--भारत के राजपत्र में दिनांक 05 अक्टूबर 1996 को शीर्षक नियमित सेना स्थाई कमीशन एवं उप शीर्षक 'कप्तान से मेजर' के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

आई सी -43203 जे के लक्ष्मण, एम एफ, 08 जनवरी 96 के बदले 08 जनवरी 98 पढ़ा जाए।

भारत के राजपत्र में दिनांक 06 सितम्बर 2003 को शीर्षक नियमित सेना स्थाई कमीशन एवं उप-शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं. में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

आई सी नं., नाम व आर्म

आई सी-43017 एस एस दलाल, इन्फैन्ट्री

आई सी-44760 गिरिश कन्दपाल, ई एम ई

आई सी-45559 निर्मल सिंह, इन्जी.

आई सी-46418 एस पी राव, ई एम ई

आई सी-46666 राजेश कुमार, सिग्नलस

आई सी-46707 एच कुमार, ई एम ई

आई सी-46729 एच एस औलख, इन्फैन्ट्री

आई सी-46810 डी दियाज़, आर्टी

आई सी-46877 जैड एम अनवर, आर्टी

आई सी-48185 ओ पी गधवाला, इन्फैन्ट्री

आई सी-48408 एस बहादुर के सी, इन्फैन्ट्री

आई सी-48869 एस पी सिंह, ई एम ई

आई सी-50136 निकेत सुदा, इन्जी.

आई सी-50185 नीरज मेहता, ई एम ई

आई सी-50411 वी एस रावैर, ए डी आर्टी

आई सी-50429 नरेश कुमार, आर्टी

आई सी-50601 एस गफ्फार, ए सी

आई सी-50612 आर एस सेखावत, इन्फैन्ट्री

आई सी-50639 पी ए एहलावत, ए ओ सी

आई सी-50641 एस बुधवार, सिग्नलस

आई सी-51919 ए के सिंह, ई एम ई

आई सी-52276 आर एस भसीन, इन्जी.

आई सी-52300 एस बी चेती, ई एम ई

आई सी-52311 एस के उनियाल, सिग्नलस

आई सी-52333 एस आर तलवार, इन्जी.

के लिए:--

16 दिसम्बर 2001

(वेतन व भत्ते दिनांक 16 दिसम्बर 2002 से देय)

पढ़ा जाए:--

11 नवम्बर 2001

(वेतन व भत्ते दिनांक 11 नवम्बर 2002 से देय)

आई सी-50824 आर के शर्मा, ई एम ई

आई सी-50889 आर रोहित, आर्टी

आई सी-50932 ए देवगन, इन्फैन्ट्री

आई सी-50966 आर सी शुक्ला, सिग्नलस

आई सी-50986 एस कुमार, इन्जी.

आई सी-51028 तेजपाल सिंह, सिग्नलस

आई सी-51032 एस शर्मा, ई एम ई

आई सी-51043 एच वर्धन, इन्ट

आई सी-51046 रविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

आई सी-51051 राम करन, ए सी

आई सी-51070 आर के श्रीवास्तवा, ए ओ सी

आई सी-51078 ए ठाकुर, इन्जी.

के लिए:--

16 दिसम्बर 2001

(वेतन व भत्ते दिनांक 16 दिसम्बर 2002 से देय)

पढ़ा जाए:--

14 दिसम्बर 2001

(वेतन व भत्ते दिनांक 11 नवम्बर 2002 से देय)

आई सी-52689 वी टी के राजू, ई एम ई

के लिए:--

16 दिसम्बर 2001

(वेतन व भत्ते दिनांक 16 दिसम्बर 2002 से देय)

पढ़ा जाए:--

15 दिसम्बर 2001

(वेतन व भत्ते दिनांक 11 नवम्बर 2002 से देय)

आई सी-49757 यू वी अलगनाथन, इन्जी.

के लिए:--

16 दिसम्बर 2000

(वेतन व भत्ते दिनांक 16 दिसम्बर 2002 से देय)

पढ़ा जाए:--

11 नवम्बर 2000

(वेतन व भत्ते दिनांक 11 नवम्बर 2002 से देय)

करम सिंह वर्मा
संयुक्त निदेशक
एम एस-8 सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th June 2004

(FINANCE DIVISION)

No. 302, dated the 2nd June 2004.—The President is pleased to appoint the following CSS Officers working as Deputy Financial Advisers (Deputy Secretaries) on personal/in-situ basis as Deputy Financial Advisers (Deputy Secretaries) on adhoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) w.e.f. the dates mentioned against each of them until further orders in terms of DOP&T OM No. 21/11/2004-CS.I dated 25.3.2004.

Sh. D.H. Sarkar, 25 Mar 2004

Sh. R. Kandir, 26 Mar 2004

Sh. N. Ganapathi, 25 Mar 2004

Sh. SLS Himanshu, 25 Mar 2004

The President is pleased to appoint the undermentioned Assistants borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officers on ad-hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the dates mentioned against each of them until further orders in pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 21/9/2004-CS.I, dated 25th March, 2004 subject to the conditions mentioned in DOP&T OM cited above.

Sh. Abhay Kumar Saran, 25 Mar 2004

Sh. Mam Raj Singh, 25 Mar 2004

Sh. M. M. Sharma, 25 Mar 2004

Sh. V. K. Aggarwal, 25 Mar 2004

Sh. Shanker Chaudhary, 25 Mar 2004

Sh. P. V. Prasad, 25 Mar 2004

Sh. Balvir Singh, 01 Apr 2004

Sh. H. C. Chaula, 25 Mar 2004

Sh. R. S. Bhatitiya, 25 Mar 2004

Sh. Rajender Pal, 01 Apr 2004

Sh. J. R. Kapoor, 01 Apr 2004

Sh. M. K. Sharma, 01 Apr 2004

Sh. S. K. Sachdeva, 25 Mar 2004

Sh. Chhidda Mal, 01 Apr 2004

Sh. Tulsi Ram, 25 Mar 2004

Sh. Sudesh Sharma, 25 Mar 2004

Sh. Surjit Singh, 25 Mar 2004

Sh. Y. K. Kaushik, 25 Mar 2004

M. C. LUTHER
Dy. Financial Adviser (E)

(ARMY BRANCH)

No. 303, dated the 07th June 2004.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Gentleman Cadet of 92 Technical Graduates Course is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 08 Dec 2001 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94. The officer also granted two year ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Dec 1999 under SAI 1/S/94:—

T/5940 Rajeev Kumar Singh (IC-61988P), EME with the seniority above T/34031 Rana Karan Singh (IC-61989X), Engrs whose name has been published in the Gazette of India dated 20 Jul 2002.

The undermentioned Gentleman Cadet of 10 University Entry Scheme Course is granted permanent commission in the rank of Lt wef 08 Jun 2002 (F/N) under the terms and conditions of AI 2/93 amended vide AI 12/96. The officer also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 11 Jun 2000 under AI 2/93 amended vide AI 12/96:—

U/358 Ritesh Prabhakar (IC-62470N), Engrs with the seniority below U/379 Dhiraj Dhiman (IC-62469Y), EME whose names has been published in the Gazette of India dated 01 Mar 2003.

The undermentioned Gentleman Cadets of 90 TG Course are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 09 Dec 2000 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94. They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 13 Dec 1998 under SAI 1/S/94:—

T/5811 Jyoti Kumar (IC-61191W), Engrs with the seniority above T/5816 Vaibhav Trivedi (IC-61192Y), EME, T/5791 Som Raj Tripathi (IC-61195M), Sigs with the seniority below T/5806 Bhagwan Prakash Dwivedi (IC-61194K), EME and T/5834 Gautam Sood (IC-61196F), EME with the seniority above U/250 Vishal Singh (IC-61197X), Engrs whose names have been published in the Gazette of India dated 23 Jun 2001.

The undermentioned Gentleman Cadet of 91 TG Course and 09 UES Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 09 Jun 2001 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94 (TGC) and AI 2/93 amended vide AI 12/96 (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 13 Jun 1999 under SAI 1/S/94 for GCs of TG Course and AI 2/93 amended vide AI 12/96 for GCs of UES Course:—

U/289 Simarjeet Singh (IC-61228M), EME with the seniority above U/292 Simant Upadhyay (IC-61229P), Sigs, T/5899 Sachin Chaudhary (IC-61239Y), Sigs with the seniority below T/5880 Aman Mehta (IC-61238W), EME,

U/299 Supratim Datta (IC-61274F), Engrs with the seniority below U/277 Nitin Suresh Khairmode (IC-61273Y), Engrs, U/296 Manbir Singh (IC-61276M), Sigs with the seniority below U/293 Nand Kishore (IC-61275K), Sigs, T/5885 Vikram Khajuria (IC-61280P), EME with the seniority below T/3365 I MD Gopinath (IC-61279A), Sigs, T/5896 Dhananjay Kumar (IC-61281X), Engrs with the seniority above T/5879 Prashant Jassal (IC-61282A), Engrs, U/276 Diwakar Kumar Gupta, (IC-61290Y), Engrs with the seniority below T/5868 Jitendra Tiwari (IC-61289K), EME, U/282 Amit Bector (IC-61291F), Sigs with the seniority above T/5858 Soumya Prakash Otta (IC-61292K), Sigs, T/5903 Vipin Kumar Saxena (IC-61295X), EME with the seniority above T/5876 N Vinod Kumar (IC-61296A), Engrs, T/5877 Munish Kumar Khullar (IC-61297H), Engrs with the seniority above T/5836 Gurbir Singh (IC-61298L), Engrs, T/5878 Misaal Yashawant Shyamrao (IC-61310F), EME with the seniority below T/5902 Durgesh Kumar Parihar (IC-61309M), EME, U/322 Vikram Singh (IC-61317L), Engrs with the seniority below U/327 Sunil Kumar Suhag (IC-61316H), Engrs and T/33597 Nitin (IC-61320L), Sigs with the seniority below T/5883 Abhay Kumar (IC-61319W), EME whose names have been published in the Gazette of India dated 05 Jan 2002.

VIJAY SAHGAL
Lt. Col.
AMS-8B

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 304, dated the 08th Jun 2004.—The President is pleased to make the following appointments in DGAQA, Ministry of Defence:—

Shri Pawan Kumar, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, C/o HAL, Nasik Division, Ojhar, on probation for a period of two years with effect from 29 Dec 2000 (FN).

Shri Anil Kumar Bhuyan, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Post Box No. 6, Sunabeda, Koraput-763002 on probation for a period of two years with effect from 06 Dec 2000 (FN).

Shri K. Premanand, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Vimanpura, Post Box No. 1782, Bangalore, on probation for a period of two years with effect from 06 Dec 2000 (FN).

Shri P Annes Babu, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in MSQAA, DGAQA, Ministry of Defence, C/o DRDL, Kanchanbagh Post, Hyderabad, on probation for a period of two years with effect from 12 Jan 2001 (FN).

Shri Ganesh Prasad Sahu, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in DGAQA, Ministry of Defence, HAL Post, Hyderabad-500042 on probation for a period of two years with effect from 16 Jan 2001 (FN).

Shri Mahendra Prasad, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, HAL Post, Lucknow on probation for a period of two years with effect from 07 Mar 2001 (FN).

Shri J. S. Prajapati, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, HAL Post, Hyderabad on probation for a period of two years with effect from 21 Mar 2001 (FN).

Shri K. Ramasamy, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in MSQAA, DGAQA, Ministry of Defence, C/o DRDL, Kanchanbagh, Hyderabad on probation for a period of two years with effect from 14 May 2001 (FN).

Shri Rajesh Yadav, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, HAL Post, Lucknow on probation for a period of two years with effect from 29 Mar 2001 (FN).

Shri Manas Kumar Dey, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Raipur Post, Dehradun on probation for a period of two years with effect from 17 Jan 2002 (FN).

Shri R. G. Dikkar, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, Khadki, Pune on probation for a period of two years with effect from 13 Feb 2002 (FN).

Shri Sanjeev Dewan, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, HAL Post, Kanpur on probation for a period of two years with effect from 24 Jul 2002 (FN).

Shri R. S. Yaduvanshi, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, C/o BEL, Post Office Bharat Nagar, Ghaziabad on probation for a period of two years with effect from 14 Nov 2002 (FN).

Shri Alagumurugesan, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II in HQ, DGAQA, Ministry of Defence, H Block, New Delhi on probation for a period of two years with effect from 30 Jan 2003 (FN).

V. SETHUMADHAVAN
Under Secy.

NAVY BRANCH NAVAL HEADQUARTERS

No. 305, dated the 3rd Jun 2004.—The President is pleased to appoint Shri Sohan Lal Chhabra, Assistant of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 16.03.2004 to 24.8.2004 or till regular incumbent become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for

administration reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administration Officer (A)

No. 306, dated the 08th Jun 2004.—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (General Service) of the Indian Navy under direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1108/DES/1746/US(P)/D(N-II) dated 04 Dec, 2001 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Direct Entry Scheme [Executive Branch
(General Service)]

Singh Rupendra Kumar (05069-W), SSC—07 Jul 2000

Mittal Sanjeev Kumar (05077-N), SSC—10 Jul 2000

The President is pleased to make the following appointment in the Electrical Branch of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/271/US(P)/D(N-II) dated 24 Feb 2003 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Direct Entry Scheme (Electrical Branch)

Sheikh Akbar Ali (51795-R), SSC—06 Jul 2001

The President is pleased to make the following appointment in the Electrical Branch of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/271/US(P)/D(N-II) dated 24 Feb 2003 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Direct Entry Scheme (Electrical Branch)

Kumar Amarendra (51792-H), SSC—02 Jul 2001

Hasamnis Sagar Ashok (51793-K), SSC—02 Jul 2001

Kulkarni Sandeep Digamber (51794-N), SSC—03 Jul 2001

The President is pleased to make the following appointment in the Education Branch of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. OF/1401/NHQ/1471/US(P)/D(N-II) dated 31 Oct 2002 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Direct Entry Scheme (Education Branch)

Arasada Vidya Sagar (70468-B), PC—02 Jul 2001

Dutta Sandupai (70469-F), PC—05 Jul 2001

KUMAR PARITOSH
Commander
JDM (R&R)
Integrated HQ-MGD (Navy)

AIR HEADQUARTERS

No. 307, dated the 03rd Jun 2004.—The President is pleased to appoint the following Assistants as Officiating Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from the dates mentioned against each till 24 Feb 2004 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

Smt. SK Sahani, 09 Feb 2004

Shri IS Sharma, 01 Jan 2004

Shri Kamal Kumar, 22 Dec 2003

Shri RK Bhonsle, 22 Dec 2003

Shri PD Sharma, 22 Dec 2003

Shri HS Sharma, 05 Feb 2004

Shri RP Sharma, 05 Feb 2004

These appointments are made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

No. 308, dated the 7th Jun 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Majors to be substantive Lt Col. (Time Scale)

A. K. Gairula (IC-38902), Inf—07 Jun 2000

S. K. Sharma (IC-38659), Inf—07 Jun 2000

D. K. Sawan (IC-38081), Inf—14 Jan 2000

A. Mukherji (IC-35777), Arty—16 Dec 1999

K. B. Kaushal (IC-39721), Arty—13 Jun 2001

T.V.S. Murthy (IC-40226), Inf—19 Dec 2001

S. B. Sinha (IC-41197), ASC—18 Jun 2003

Krishan Chand (IC-42713), Engr—25 Dec 2002

A. R. Verma (IC-45051), Inf—26 Apr 2003

Biman Roy (IC-41608), ASC—17 Dec 2003

Y. P. Sinha (IC-45166), EME—10 Nov 2003

Devendra Singh (IC-41745), EME—17 Dec 2003

D. Chaudhary (IC-43623), Sigs—18 Dec 2003

S. S. SINHA
Dy. Dir.
DAMS-8A

No. 309, dated the 04th Jun 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

REGIMENTAL COMMISSION

Capt to be Maj

RC No., Name and ARM

RC-732 Om Prakash Korla, Arty

RC-734 Vishwanathan KP, EME

RC-742 Mohan Singh Sohal, Arty

RC-751 Venugopalan P, EME

RC-766 Yadwinder Singh, Inf

RC-777 Ram Kumar, EME

RC-790 Bishan Dass Choudhary, Inf

RC-795 Aslam Ali, Engrs

RC-797 Sewa Singh, Arty

RC-799 Parkash Chand Azad, AC

RC-805 Jasbir Singh, Arty

— 04 Dec 2003

RC-714 Suriesetti Appala Naidu, Sigs

—05 Dec 2002

(Pay & Allowances wef 27 Oct 2003)

IC No., Name and ARM

IC-46607 Sudhir Govil, ASC

—27 Oct 2002

(But for Pay & allowances wef 27 Oct 2003)

IC-54656 Sunil Kumar Jha, ASC

—06 Nov 2002

(But for Pay & allowances wef 27 Oct 2003)

IC-53864 Chaudhari Rahul Dnyaneshwar, EME

IC-53865 Hundekar Sabir Hussain Ibrahim, EME

IC-53869 Paramjit Singh Jyoti, Engrs

IC-53873 Avinash Katoch, EME

—13 Jun 2003

IC-55322 Dinesh Kumar, Engrs

IC-55325 Zafar Safdar, Engrs

IC-55326 Blushan Ramdas Awasare, EME

IC-55330 Brajesh Dwivedi, Sigs

IC-55331 Jagvir Singh Jaglan, EME

—11 May 2003

KS VERMA
Jt Dir
MS-8C

(AIR FORCE)

No. 310, dated the 08th Jun 2004.—The President is pleased to make the following substantive Promotion:—

INDIAN AIR FORCE

AE(L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

P. Narendra (20913)

—09 Mar 2000

F(P) Branch

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

P. Singh (20520)

—14 Jan 2000

S SRIVASTAV
Sqn Ldr
DDPO 3(D)

No. 311, dated the 07th Jun 2004.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Select)

RC Bansal (16933), AE(L)—16 Jan 2004

SK SHUKLA

Dy. Director of Personnel (Officers) 2(B)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 312, dated the 07th Jun 2004.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Gazette Notification published on 05 Oct 1996 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made:—

Against :— IC-43203 JK Laxman, MF

For :— 08 Jun 1996

Read :— 08 Jun 1998

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 06 Sep 2003 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to Maj" the following amendment is made :—

Against :—

IC No., Name and ARM

IC-43017 SS Dalal, Inf

IC-44760 Girish Kandpal, EME

IC-45559 Nirma Singh, Engrs

IC-46418 SP Rao, EME

IC-46666 Rajesh Kumar, Sigs

IC-46707 H Kumar, EME

IC-46729 HS Aulakh, Inf

IC-46810 D Diaz, Arty

IC-46877 ZM Anwer, Arty

IC-48185 OP Gathwala, Inf

IC-48408 S Bahadur KC, Inf

IC-48869 SP Singh, EME

IC-50136 Niket Suda, Engrs

IC-50185 Neeraj Mehta, EME

IC-50411 VS Rathore, AD Arty

IC-50429 Naresh Kumar, Arty

IC-50601 M Gaffar, AC

IC-50612 RS Sekhwat, Inf

IC-50639 PA Ahlawat, AOC

IC-50641 S Budhwar, Sigs

IC-51919 AK Singh, EME

IC-52276 RS Bhasin, Engrs

IC-52300 SB Chetty, EME

IC-52311 SK Uniyal, Sigs

IC-52333 SR Talwar, Engrs

For :—

16 Dec 2001

(But for Pay & allowances wef 16 Dec 2002)

Read :—

11 Nov 2001

(But for Pay & allowances wef 11 Nov 2002)

IC-50824 RK Sharma, EME

IC-50889 R Rohit, Arty

IC-50932 A Devgan, Inf

IC-50966 RC Shukla, Sigs

IC-50986 S Kumar, Engrs

IC-51028 Tejpal Singh, Sigs

IC-51032 S Sharma, EME

IC-51043 H Vardhan, Int

IC-51046 Ravinder Singh, Inf

IC-51051 Ram Karan, AC

IC-51070 RK Shrivastava, AOC

IC-51078 A Thakur, Engrs

For :—

16 Dec 2001

(But for Pay & allowances wef 16 Dec 2002)

Read :—

14 Dec 2001

(But for Pay & allowances wef 11 Nov 2002)

IC-52689 VTK Raju, EME

For :—

16 Dec 2001

(But for Pay & allowances wef 16 Dec 2002)

Read :—

15 Dec 2001

(But for Pay & allowances wef 11 Nov 2002)

IC-49757 UV Ulaganathan, Engrs

For :—

16 Dec 2000

(But for Pay & allowances wef 16 Dec 2002)

Read :—

11 Nov 2000

(But for Pay & allowances wef 11 Nov 2002)

K S VERMA

Jt Dir

M6-8C